श्राहा नृगमनृकन ? म न्हासाव क्वाछिनयाकन पशुपतिजों थनकान्वासयायन ॥ गुह्येश्वरी हाव ?यन्
हिनकाउ । कृतियादनसनयायन ॥ शिवनिलकछ महादेव छिगुलिसन ?इकाउ ॥ धमाधलिन आनदाग्वमा
निहयान । आनतुआनछिसपोवासवासयायन ॥ काकृन्यासियकाउान ॥ जानक्वाहाउान अमदिवासयायन ॥ मा
नक्वाव्यानाकाउाव्यानदंगमछिहाउा मकूनीहेनवदवलनयाहाउान ॥ ? नउाक्वाठसनउाइगमकुउाबउाः
हउनमीयान ॥ त्रिभुवनहिमनसगंमनगुयाहास । नामनछिमनदनसनयायन ॥ धयवनानआसजायाव
नान्यावासयानतुआनकाहासन ॥ उमनन्रजानछिसयानायाहायानाल जासजाला किजाला जास गुपन
वासयायन ॥ उलव्यूनादउा हिमलपकोबउावानन्थनावासयाउान ॥ धूंव्यासक्वाहाउमदा सिल ? ?
छिहावलल्याहनानआन वन्द्रसिवासयायन ॥ लकनी विनायक हउनयाउानथाबआस थनकाउ ॥ निकं
छसथनकाउान्वासयायन ॥ यापदहसथनन्कउालनन पापहिनमडाक्वायन मयुमिला ॐउा न्यानदन
लिवदनसनयायन ॥ हनयादमहन ? ननूहनछन । थउा ॐ लिहाउानकुकेउालममइलन ॥ पशुपति
जाथनउल ह्मान निक्वाय गुह्येश्वरीयानामकास । गुह्येश्वरीतानकाउावउमनन्बपदहानउाइगर्भह
यानवदनसनयाहाव नलेकु विनायक श्रीनलवाहाइन याकूनप्रजाड्ढ नेपाल ॥ ॥ ॥

ॐ नमः श्रीत्वस्थानीयपरमेश्वरीनमः॥ श्रीगुरुगणेशायैनमः॥ श्रीसारदादेव्यैनमः॥ मुषि
कवाहनमोदकहस्त·चामलकर्णविलम्बितसुत्र·वामनरुपमहेश्वरपुत्र·विघ्नविना
यकपादनमस्ते॥ ॥हेरम्बपरमदेवकार्जेसिद्धिविनायक·सौभाग्यरुपसम्पूर्णदेहि
मेसुःखसंपदः॥ ॥श्रीसारदायैनम॥ जाकुणेंदुतुषालहालधवलाजाश्वेतपद्मास
ना

आशा सफुकुथि
2778
ASHA ARCHIVES